



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 12, 2011/वैशाख 22, 1933

No. 834]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2011/VAISAKHA 22, 1933

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2011

**का.आ. 1027(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय वक्फ नियम, 1998 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 9 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 18 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या का० आ० 333 (अ) का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, तत्कालीन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 26 जून, 1997 की अधिसूचना संख्या का० आ० 464 (अ) द्वारा गठित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 2 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या का० आ० 492(अ) के तहत पुनर्गठित केन्द्रीय वक्फ परिषद का एतद्वारा पुनर्गठन करती है और कथित प्रयोजनार्थ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित को 5 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :-

वक्फों के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री

— अध्यक्ष

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के अधीन नियुक्त सदस्य

1. श्री शकील अहमद सैयद,  
मदनी हॉल, जमियत उलेमा-ए-हिन्द  
नं० 1, बहादुर शाह ज़फर मार्ग,  
नई दिल्ली-110002

2. श्री फारूख महमूद,  
मानद सचिव, अल-अमीन एजुकेशन सोसायटी (बंगलौर)  
होसूर रोड, लाल बाग रोड के समीप, मेन गेट, बंगलौर— 560027
3. जनाब मौलाना मो० वली रहमानी,  
सचिव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,  
76ए/1, मेन मार्केट, ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली— 110025

**धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अधीन नियुक्त सदस्य**

1. श्री मोहम्मद रिजवान अंसारी,  
गांव— पूरे गुलाब, डाक घर गोपीगंज, संत रविदास नगर,  
भदोही, उ० प्र० 221303
2. श्री युसूफ अली एम० ए०,  
एमके मेन्शन 1, नट्टिका, त्रिसूर जिला—केरल
3. श्रीमती यासमीन अहमद, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त),  
गोल्डन चट्टेयु, बी/21, 6वीं गली, भुतल,  
अन्ना नगर पूर्व, चेन्नई, तमिलनाडु—600102
4. प्रोफेसर (डॉ०) कमर रहमान,  
3, गुलजार कॉलोनी, क्लाइड रोड, लखनऊ, उ० प्र० 226001

**धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iii) के अधीन नियुक्त सदस्य**

1. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर,  
संसद सदस्य (लोक सभा)  
बी-601, एम. एस. फ्लैट,  
बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली—110 001
2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन,  
संसद सदस्य (लोक सभा),  
7, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली—110001
3. प्रो० सैफुद्दीन सोज,  
संसद सदस्य (राज्य सभा),  
12, अकबर रोड, नई दिल्ली—110 001

**धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (iv) के अधीन नियुक्त सदस्य**

1. श्री सैयद गुलाम अफजल बेयाबानी, उर्फ खुसरो पाशा,  
अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड,

रज्जाक मंजिल, हज हाउस बिल्डिंग,  
पब्लिक गार्डेन्स, नामपल्ली के सामने,  
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश— 500 001

2. श्री तारिक अनवर,  
संसद सदस्य (राज्य सभा) एवं  
अधिष्ठाता अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड,  
पनचक्की, औरांगाबाद, महाराष्ट्र—431 002

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (v) के अधीन नियुक्त सदस्य

1. न्यायमूर्ति एस0 हैदर अब्बास रजा,  
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश,  
डी-3, शालीमार इम्पीरियल, गोखले मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (vi) के अधीन नियुक्त सदस्य

1. श्री एम0 इकबाल ए0 शेख,  
जी/2, सिलवर पैलेस, ली मेरिडियन के समीप, बी0एम0सी बैंक के बगल में,  
खानपुर, अहमदाबाद, गुजरात— 380001

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (vii) के अधीन नियुक्त सदस्य

1. डॉ0 सैयद शाह खुसरो हुसैनी,  
सज्जादा नशीन, दरगाह हजरत खाजा बंदा नवाज (रह0),  
गुलबर्ग, कर्नाटक —585104

धारा 9 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (viii) के अधीन नियुक्त सदस्य

1. जनाब मौलाना मोहम्मद फजलुर्रहीम मुजादिददी,  
(जामिया—तुल—हिदाया, जयपुर)  
फ्लैट नं0 ए-3, डी-92, अबदुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर,  
ओखला, नई दिल्ली—110025
2. डॉ0 (श्रीमती) जीनत शैकत अली,  
फ्लैट नं0 102, हारमोनी अपार्टमेंट, शिरले राजन रोड, ओफ कार्टर रोड,  
बंदरा वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र—400050
3. डॉ0 ज़हूर मोहम्मद खान,  
ए-804, पथिक विहार, सी-58/30, सेक्टर-62,  
नोएडा, उ0 प्र0 — 201307

[फा. सं. 8/1/2010-वक्फ, खंड-1]

ई. आर. सोलोमन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2011

**S.O. 1027(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 9 of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995) read with Rule 4 of the Central Wakf Rules, 1998, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Minority Affairs number S.O. 333 (E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby re-constitutes and for the said purpose appoints the following as Chairperson and members to the Central Wakf Council, established by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Welfare number S.O. 464 (E), dated 26<sup>th</sup> June, 1997 and re-constituted *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 492 (E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 2003, for a period of five years, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

**Union Minister in charge of Wakfs** — **Chairperson.**

**Members appointed under sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Shri Shakil Ahmad Syed,  
Madni Hall, Jamiat Ulema-i-Hind  
No. 1, Bahadur Shah Zafar Marg,  
New Delhi – 110002.
2. Shri Farook Mahmood,  
Hon. Secretary, Al-Amin-Education Society (Banglore)  
Hosur Road, Near Lal Bagh Road, Main Gate, Banglore-560027.
3. Janab Maulana Mohd. Wali Rahmani,  
Secretary, All India Muslim Personal Law Board  
76A/1, Main Market, Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

**Members appointed under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Shri Mohammad Rizwan Ansari  
Vill-Pure Gulab, P.O. Gopiganj, Sant Ravidas Nagar,  
Bhadohi, U.P. -221303.
2. Shri Yusuff Ali M.A.  
Emke Mansion 1, Nattika, Trissur Dist., Kerala.
3. Smt. Yasmin Ahmed, I.A.S (Retd.),  
Golden Chateau, B/21, 6<sup>th</sup> Street, Ground Floor,  
Anna Nagar East, Chennai, Tamil Nadu-600102.
4. Professor (Dr.) Qamar Rahman  
3, Gulzar Colony, Clyde Road, Lucknow, U.P.-226 001.

**Members appointed under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Shri E.T. Mohammed Basheer,  
MP (Lok Sabha)  
B-601, M.S. Flats,  
B.K.S Marg, New Delhi-110001.
2. Shri Syed Shahnawaz Hussain,  
MP (Lok Sabha)  
7, Pandit Pant Marg, New Delhi – 110001.
3. Prof. Saif-ud-Din Soz,  
MP (Rajya Sabha)  
12, Akbar Road, New Delhi 110001.

**Members appointed under sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Shri Syed Gulam Afzal Biabani alias Khusro Pasha,  
Chairman, Andhra Pradesh State Wakf Board,  
Razzak Manzil, Haj House Building,  
Opp. Public Gardens, Nampally,  
Hyderabad, Andhra Pradesh – 500 001.
2. Shri Tariq Anwar,  
Member of Parliament (Rajya Sabha) and  
Presiding Chairperson, Maharashtra State Board of Wakfs,  
Panchakki, Aurangabad, Maharashtra – 431 002.

**Members appointed under sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Justice S. Haider Abbas Raza,  
Former Senior Judge of Lucknow Bench of High Court at Allahabad  
D-3, Shalimar Imperial, Gokhle Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.

**Members appointed under sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Shri M. Iqbal A. Shaikh  
G/2 Silver Palace, Near Le Meriden Hotel, Beside B.M.C Bank,  
Khanpur, Ahmedabad, Gujarat-380001.

**Members appointed under sub-clause (vii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Dr. Syed Shah Khusro Hussaini,  
Sajjada Nashin, Dargah Hazrat Khaja Banda Nawaz (Rh),  
Gulbarga, Karnataka-585104.

**Members appointed under sub-clause (viii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9:**

1. Janab Maulana Mohammed Fazlur Rahim Mujaddidi,  
(Jamea-Tul-Hidaya, Jaipur)  
Flat No.-A-3, D-92, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar,  
Okhla, New Delhi-110025.
2. Dr. (Mrs.) Zeenat Shaukat Ali  
Flat No.-102, Harmony Apartments, Shirley Rajan Road, Off Carter Road,  
Bandra West, Mumbai, Maharashtra-400050.
3. Dr. Zahoor Mohammad Khan  
A-804, Pathik Vihar, C-58/30, Sector-62,  
Noida, U.P.-201307.

[F. No. 8/1/2010-Wakf. Vol. I]

E.R. SOLOMON, Jt. Secy.